



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1099 राँची, शुक्रवार,

7 दिसम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

20 नवम्बर, 2018

आदेश संख्या:-5/आरोप-1-143/2017 का. 8467-- श्री राजीव नीरज, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजनगर, सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) क्षेत्र, चाईबासा के पत्रांक-398, दिनांक 6 जून, 2017 द्वारा समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन एवं इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं०-7579, दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा निर्धारित किया गया ।

2. प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक-741, दिनांक 19 सितम्बर, 2017 द्वारा श्री नीरज के विरुद्ध सरायकेला-खरसावाँ जिला के अन्तर्गत राजनगर थाना क्षेत्र के कथित बच्चा चोरी के अफवाहों को गंभीरता से नहीं लेने संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया है ।

3. श्री नीरज के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-197(HRMS), दिनांक 28 फ़रवरी, 2018 द्वारा श्री नीरज को निलंबन से मुक्त करते हुए भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए मामले को संचिकास्त किया गया है।

4. अवर सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक-339, दिनांक 4 अप्रैल, 2018 द्वारा श्री नीरज के निलंबन अवधि की सेवा को विनियमित करने के संबंध में इनके द्वारा समर्पित आवेदन उपलब्ध कराया गया है।

5. इस प्रकार, श्री नीरज दिनांक 28 जून, 2017 से 28 फ़रवरी, 2018 तक निलंबित रहे हैं, अतः समीक्षोपरांत इनके निलंबन अवधि दिनांक 28 जून, 2017 से 28 फ़रवरी, 2018 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत कर्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
